

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 17.11.2020

थाना कोठी पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से दो अदद तमंचा मय जिन्दा कारतूस, आधार कार्ड सहित 8000/-रुपये व घटना में प्रयुक्त मोबाइल तथा एक अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री पवन गौतम के निर्देशन एवं थानाध्यक्ष कोठी श्री रितेश पाण्डेय के नेतृत्व में आज दिनांक 17.11.2020 को थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 353/2020 धारा 120बी/395/412/364ए भादवि में वांछित 02 अभियुक्तगण को आज दिनांक-17.11.2020 को समय करीब 04.40 बजे उस्मानपुर नहर पुलिया थाना कोठी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद तमंचा 315 बोर, दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर, घटना में प्रयुक्त दो अदद मोबाइल (टच- स्क्रीन रियलमी C-2 व एक अदद मोबाइल की पैड सैमसंग) व एक अदद मो०सा०प्लेटिना UP41P 3590, एक अदद आधार कार्ड व कुल 8000/-रुपये बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोठी में मु०अ०सं० 355-356/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो ने अन्य चार व्यक्तियों के साथ दुकान बन्दकर घर वापस आ रहे देवेन्द्र कुमार से कुल 42000 /- रुपये व आधार कार्ड छीनकर मुँह बन्द करते हुए अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल लिया था । हम लोगो ने गाड़ी मे देवेन्द्र को डालने के बाद पाचों लोग उस्मानपुर होते हुये सादुल्लापुर होते हुये मेन रोड से बाराबंकी की तरफ जा रहे थे तभी मजीठा के पास देवेन्द्र गाड़ी से उतरकर भाग लिया था। हम लोगो ने पकड़ने का प्रयास किये लेकिन तभी कई गाड़ियां निकली जिनकी रोशनी की वजह से डर गये कि कही हम लोग फंस न जाये इसके बाद हम लोग लखनऊ चले गये थे और पैसे को आपस में बंटवारा कर लिया गया था जिसका बचे हुए 8000/-रुपये बरामद किया गया। बरामद मो०सा० नं० UP 41P3590 जिसे अभियुक्त अनिल अपना होना बता रहा है जिसे धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. शिवम वर्मा पुत्र स्व० वीरेन्द्र वर्मा निवासी कुम्हरावा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
2. अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व० पूर्णमासी निवासी कुम्हरावा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

### गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 17.11.2020 को समय करीब 04.40 बजे उस्मानपुर नहर पुलिया थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

### **बरामदगी का विवरण –**

1. दो अदद तमंचा 315 बोर
2. दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. घटना में प्रयुक्त दो अदद मोबाईल (टच- स्क्रीन रियलमी C-2 व एक अदद मोबाइल की पैड सैमसंग)
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोसाप्लेटिना UP41P 3590
5. एक अदद आधार कार्ड
6. कुल 8000/- रूपये

### **पुलिस टीम-**

01. थानाध्यक्ष कोठी श्री रितेश कुमार पाण्डेय जनपद बाराबंकी।
02. व030नि0 प्रदीप कुमार यादव थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
03. का अमित कुमार, का0 राबिन सिंह थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
04. का0 भूपेन्द्र, का0 नरेन्द्र यादव थाना कोठी जनपद बाराबंकी।